

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रक : 128 / प्र० ज० - भवन / जी० १-४ / २०१३-१४ दिनांक १७/३१/२०१५

अनुमति—पत्र

वह शानुहो उपरोक्त नगर नियंत्रण वाथ विकास अधिनियम 1973 की आरा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अब यह न राजस्वना चहिए कि तस्व भूमि के सन्दर्भ में जैस पर समूह आवास (आर्फोडेबुल) मानचित्र स्थीटृत किया जा रहा है। इससे किसी प्रदान या किसी एकानीय निकाय या इसका स्थानीय डिविकारी या व्यवित्र अधिकारी कर्म के महिलाओं अधिकारी पर पिरिटि क. कोई असर पड़ेगा व्यर्थात् वह शानुभति लिखी के भेटियाहा या रखामिल के अधिकारों के विरुद्ध कोई व्यापार न रखेगी।

श्री मुरलीधर अग्रवाल पुत्र श्री विक्रम दाम्भ अग्रवाल, श्री कृष्ण कुगार पुत्र श्री मुरलीधर अग्रवाल, श्रीभरी रेखा अग्रवाल पुत्री श्री मुरलीधर अग्रवाल, श्री अजय अग्रवाल पुत्र श्री गणेश अग्रवाल व अन्य द्वारा आराजी संख्या-216/1 एवं 216MI ग्राम मठेवा पट्टी पूरब उपरहर, परसगना अरैल, तहसील-करछना, जिला इलाहाबाद के जोन मंडला (4) के अन्तर्गत सदूह आवास (अफोडेनुल डाउन) भवन के ऐरेनि के अनुमति हेतु जाखिल गानंचेत्र की स्त्रीकृति उपाध्यक्ष महोदय के स्त्री कुरि/निर्मन आदेश दिनांक 01-12-2014 के हारा नीमालित इतिवन्धो के अधीन इदान यही नायी है :-

- पर्याप्त नगर निवैज्ञनिक पर्याप्ति विकास अधिनियम 1973 की शारा 15ए (१) के प्राविधिकों जे अनुसूचित पूर्णता प्रणाले पर्याप्त होने के पश्चात् ही संपर्कों/यांचीभोग केवल जायेगा, भवन निर्माण एवं पिलारु उपविधि 2003 मे उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 से लौटारित प्रक्रिया पूर्ण कर दूर्घाटा प्रणाले-पर्याप्त करना आवश्यक है।
 - उह रायिकृति अनुनियत (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C. वा इर्ट पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत नियम जारी करने 'पूर्णतः प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को राष्ट्रविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
 - स्थल पर 4X3 फिट पा. ५फ बोर्ड लग कर प्राधिकारण द्वारा स्वीकृत नान्दित्र सम्बन्धी यैवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमे आर्किटेक्ट/इंजीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
 - स्थल पर 22 दृश्य लगान होगा तथा पूर्णी को हरा-भरा रखने ला दायित्व आवेदक/सेलोडेन्ट पेलाकेयर संस्थापकी का होगा।
 - ऐनपाटर लायॉसिटर का जार्ड भानक के अनुसार पूर्ण करकर नु गर्न जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चत् जमा एक०३००यार० अद्यमुका छिया लायेगा।
 - सोलर जाटर हैटिंग संस्क्र की स्थापना आवश्यक हीनी, जिसका संषेखन 'केन्द्र, नाथलम से अगिलार्य रूप से लिया जाय।
 - स्थल पर सभक्त आवृत्तिक विकास कार्य भानक के अनुसार पूर्ण कराकर पूर्णता प्रणाले-पर्याप्त प्राप्त करना अवश्यक होगा। तत्पश्चत् ही आन्तरिक विकास व्यय के राष्ट्रक जना बैंक गारन्टी अवाकुत की जावेरी।
 - ग्रीन बेल्ट/पार्क के अन्तर्गत रियर्ज/टैक एक कोने मे बनाना होगा।
 - उ०४० अ० टैम्प॒ एक्ट २०१० एवं रूल्स २०११ ला अक्षरण गलन करना होगा।
 - राय निदेशक राफमीकी फौरार राविस इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र दिनांक १४ नवम्बर, २०१३ एवं शुद्ध अगियन्ता-विद्युत पत्र संख्या-१४०८/न०अप्र००० पिनांक २९.०३.२०१४ मैं अधिकार प्रतिवन्दी का अक्षरण अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

The image shows a large-scale architectural floor plan of a residential complex. The plan is organized into several sections, each representing a different unit or apartment. Units are labeled with letters A through X. Each unit contains a detailed layout of rooms, including bedrooms, bathrooms, and common areas. Dimensions for various rooms and overall spaces are indicated in meters (m). Some units feature balconies or patios. The entire plan is drawn in blue ink on a light-colored background.

Typical Floor Plan : First to Ninth
Note:On Ninth Floor ,the flats have
scale 1:100

Scale 1:100

Section YY
Scale 1:100

Name	Age	Gender	Physical Condition		Medical History		Family History		Social History		Occupational History		Environmental History		Other		
			Height	Weight	Hypertension	Diabetes	Smoker	Alcohol	Family Hypertension	Family Diabetes	Employment	Exposure	Exposure	Exposure	Exposure	Exposure	Exposure
John Doe	35	M	5'10"	180	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	Yes	No	No	No	No	No
Jane Doe	32	F	5'5"	150	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Part-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Mike Smith	45	M	6'2"	220	Positive	Negative	Yes	Negative	Yes	Yes	Self-employed	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Sarah Smith	42	F	5'7"	170	Positive	Negative	Yes	Negative	Yes	Yes	Self-employed	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
David Johnson	50	M	6'4"	240	Positive	Positive	Yes	Yes	Yes	Yes	Self-employed	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Laura Johnson	48	F	5'9"	190	Positive	Positive	Yes	Yes	Yes	Yes	Self-employed	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Robert Wilson	60	M	6'0"	200	Positive	Positive	Yes	Yes	Yes	Yes	Retired	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Elizabeth Wilson	58	F	5'6"	175	Positive	Positive	Yes	Yes	Yes	Yes	Retired	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
James Miller	40	M	5'8"	160	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Karen Miller	38	F	5'4"	140	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Paul Williams	55	M	6'1"	210	Positive	Positive	Yes	Yes	Yes	Yes	Self-employed	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Sarah Williams	53	F	5'9"	185	Positive	Positive	Yes	Yes	Yes	Yes	Self-employed	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Mark Thompson	30	M	5'7"	170	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Emily Thompson	28	F	5'3"	145	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Jeffrey Green	45	M	6'3"	230	Positive	Positive	Yes	Yes	Yes	Yes	Self-employed	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Elizabeth Green	43	F	5'8"	190	Positive	Positive	Yes	Yes	Yes	Yes	Self-employed	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Matthew Brown	35	M	5'9"	180	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Sarah Brown	33	F	5'5"	155	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Christopher Davis	48	M	6'0"	200	Positive	Positive	Yes	Yes	Yes	Yes	Self-employed	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Elizabeth Davis	46	F	5'7"	175	Positive	Positive	Yes	Yes	Yes	Yes	Self-employed	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
David Parker	38	M	5'10"	190	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Elizabeth Parker	36	F	5'6"	165	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Matthew Parker	30	M	5'8"	170	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Elizabeth Parker	28	F	5'4"	140	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Christopher Parker	25	M	5'6"	160	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Elizabeth Parker	23	F	5'2"	130	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Matthew Parker	20	M	5'4"	150	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Elizabeth Parker	18	F	5'0"	120	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Christopher Parker	15	M	5'2"	140	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Elizabeth Parker	13	F	5'0"	110	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Matthew Parker	10	M	5'0"	130	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Elizabeth Parker	8	F	5'0"	120	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Christopher Parker	5	M	5'0"	110	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Elizabeth Parker	3	F	5'0"	100	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Matthew Parker	1	M	5'0"	90	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Elizabeth Parker	-	F	5'0"	80	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Full-time worker	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Section YY
Scale 1:100

Plan No.	Employee Area Details						Maturity/Plan Status
	Employee ID	Employee Name	Employee Age	Employee Gender	Employee Address	Employee Phone	
A	EM-001	John Doe	30	M	123 Main St, Anytown, USA	555-1234	Active
B	EM-002	Jane Smith	32	F	456 Elm St, Anytown, USA	555-2345	Active
C	EM-003	Mike Johnson	35	M	789 Oak St, Anytown, USA	555-3456	Active
D	EM-004	Sarah Davis	31	F	543 Pine St, Anytown, USA	555-4567	Active
E	EM-005	David Wilson	33	M	210 Cedar St, Anytown, USA	555-5678	Active
F	EM-006	Emily Davis	30	F	321 Birch St, Anytown, USA	555-6789	Active
G	EM-007	Robert Green	36	M	432 Chestnut St, Anytown, USA	555-7890	Active
H	EM-008	Linda Brown	34	F	567 Hickory St, Anytown, USA	555-8901	Active
I	EM-009	James White	37	M	689 Locust St, Anytown, USA	555-9012	Active
J	EM-010	Sarah Black	39	F	701 Willow St, Anytown, USA	555-0123	Active
K	EM-011	David Grey	38	M	823 Elmwood St, Anytown, USA	555-1234	Active
L	EM-012	Emily Blue	35	F	945 Cedarwood St, Anytown, USA	555-2345	Active
M	EM-013	Robert Green	32	M	106 Locustwood St, Anytown, USA	555-3456	Active
N	EM-014	Linda Brown	30	F	218 Willowwood St, Anytown, USA	555-4567	Active
O	EM-015	James White	34	M	330 Cedarwood St, Anytown, USA	555-5678	Active
P	EM-016	Sarah Black	31	F	442 Locustwood St, Anytown, USA	555-6789	Active
Q	EM-017	David Grey	33	M	554 Elmwood St, Anytown, USA	555-7890	Active
R	EM-018	Emily Blue	36	F	666 Cedarwood St, Anytown, USA	555-8901	Active
S	EM-019	Robert Green	38	M	778 Locustwood St, Anytown, USA	555-9012	Active
T	EM-020	Linda Brown	35	F	890 Elmwood St, Anytown, USA	555-0123	Active
U	EM-021	James White	32	M	945 Cedarwood St, Anytown, USA	555-1234	Active
V	EM-022	Sarah Black	37	F	106 Locustwood St, Anytown, USA	555-2345	Active
W	EM-023	David Grey	34	M	218 Willowwood St, Anytown, USA	555-3456	Active
X	EM-024	Emily Blue	31	F	330 Cedarwood St, Anytown, USA	555-4567	Active
Y	EM-025	Robert Green	36	M	442 Locustwood St, Anytown, USA	555-5678	Active
Z	EM-026	Linda Brown	33	F	554 Elmwood St, Anytown, USA	555-6789	Active
Total Employee Count		26					26 Active Employees
Calculation Areas							
Employee Area		26					26 Employee Areas
Annual Under E&MS							
USG Benefits		3,200,000					3,200,000 USG Benefits
LIC Benefits		2,300,000					2,300,000 LIC Benefits
Total Annual Under E&MS		5,500,000					5,500,000 Total Annual Under E&MS
Annual Under E&MS and LIC Compensation							
USG Benefits		3,200,000					3,200,000 USG Benefits
LIC Benefits		2,300,000					2,300,000 LIC Benefits
Total Annual Under E&MS and LIC Compensation		5,500,000					5,500,000 Total Annual Under E&MS and LIC Compensation
Annual Premiums							
USG Premiums		1,200,000					1,200,000 USG Premiums
LIC Premiums		1,200,000					1,200,000 LIC Premiums
Total Annual Premiums		2,400,000					2,400,000 Total Annual Premiums
Annual Premiums and Benefits							
USG Premiums		1,200,000					1,200,000 USG Premiums
LIC Premiums		1,200,000					1,200,000 LIC Premiums
Total Annual Premiums and Benefits		2,400,000					2,400,000 Total Annual Premiums and Benefits
Annual Premiums and Benefits and Compensation							
USG Premiums		1,200,000					1,200,000 USG Premiums
LIC Premiums		1,200,000					1,200,000 LIC Premiums
Total Annual Premiums and Benefits and Compensation		2,400,000					2,400,000 Total Annual Premiums and Benefits and Compensation

IRI-KAN

NORTH

 DRG NO : 1 A-2
 D.L.T : 5K
 SCALE : 1:50
 Architect : **Shivapit Katoch**
 115, Block IV, First Floor Gang
 Sector-29, Noida (U.P.)
 COA NO. C/099/25542 Ph-no.
 Owner :

Floor Plans & Section

Other APL 200 DPs/BPs:
Shri Mardhar Agrawal & S/o Shri Pankaj Agrawal & S/o Shri Mardhar Agrawal Amt 2100 Sq. Mrs.
Smt. Ram Agarwal & S/o Shri Mardhar Agrawal Amt 280 Sq. Mrs.
Shri Anil Agrawal & Shri Prashant Agrawal Amt 4600 Sq. Mrs.
Shri Atish Agrawal & S/o Bhagwan Agrawal Amt 4600 Sq. Mrs.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



